

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 20/2021 दिनांक: फरवरी, 04/2021

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 04.02.2021 को थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-380/2017 धारा-376(ए)(बी) भादवि व 5एम/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त दिलीप कुमार विश्वकर्मा पुत्र बनारसी लाल निवासी जे- 35/139 नक्खी घाट थाना जैतपुरा वाराणसी को मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व रू0-10,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 04.02.2021 को थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0340/2019 धारा 376/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त पंधारी पुत्र गुटुर निवासी किरहिया खोजवा थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 47 वर्ष को सुदामापुर तिराहे के पास से समय करीब 10.35 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- पंधारी पुत्र गुटुर निवासी किरहिया खोजवा थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 47 वर्ष

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

- उ0नि0 अजय वर्मा, हे0का0 राजू राम, हे0का0 मणिन्द्र यादव व का0 आलोक उपाध्याय थाना भेलूपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे \*“मिशन शक्ति”\* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 04.02.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 174 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 5641 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 753 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 175 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 2172 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 04 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 151 सीआरपीसी की कार्यवाही व 222 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।